

आकाशवाणी

खबरां ---

1 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंरें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी 20 जहार करोड़ र००दी 17मीं किशत जारी कीती।

2 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंरें ग्राम ंचैतें अग्ग०अनुरोध कीता ऐ ज० खरी सहत लई योग त०मुट्टा अनाज गी बढ़ावा दल्ल।

3 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंर 10में अंतरराश्ट्री योग दिवस समारोह दी अगुवाई श्रीनगर च करंगन।

4 प्रधानमंत्री मोदी होंरें 30 जून गी आकाशवाणी ०रा मन की बात प्रोग्राम राएं अ०न०विचार सांझा करंगन।

5 भारत त०अमरीका नै महत्वपूर्ण त०उभरदी तकनीकें बारै चर्चा कीती त०प्रौद्योगिकी क्षत्र च सामरिक सांझ-भ्याली प्रति अ०नी प्रतिबद्धता गी फही दोहराया।

PM-Kissan

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें अज्ज अणुयुनावी हल्का वाराणसी दा दौरा लाया। उनें प्रधानमंत्री सिकान सम्मान सम्मलन वाराणसी च बी शिरकत कीती। प्रधानमंत्री हुंदा काशी विश्वनाथ मंदरे च पूजा तदर्शन करनथमां पैहलदशाशवमघा घाट उपर गंगा आरती गी दिखनदा बी प्रोग्राम ऐ। अज्ज वाराणसी ठहरनमगरा मोदी होर कल बिहार लई रवाना होई जांगन। आकाशवाणी संवाददाता नै जानकारी दिती ऐ जत्री बारी प्रधानमंत्री दा कार्यभार सांभनमगरा नरेंद्र मोदी हुंदा वाराणसी दा एह पैहला दौरा ऐ। प्रधानमंत्री मोदी अज्ज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना दी 20 जहार करोड़ रुपदी 17मीं किश्त जारी कीती जव कन्नै 9 इशारिया 26 करोड़ करसानें गी फैयदा पुज्जोग। अज्जै तोड़ी समूलचाश्ट्र च 11 करोड़ कोला मतकरसानें गी 304 लख करोड़ रुपदित जाई चुकादा। प्रधानमंत्री होरें कार्यक्रमदौरान 30 जहार शां बद्द आ सहायता समूहें कन्नै जुड़ी दी महिलाएं गी कृषि सखी दप्रमाण पत्र बी प्रदान कीत।

<><><><><><>

PM-Gram-Panchayat

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंरें ग्राम ंचैतें दऱप्रमुखें गी योग तऱजागरूकता फैलाइयऱसमग्र स्वास्थ्य गी इक जन आंदोलन बनानऱदा आग्रह कीता ऐ। ग्राम प्रधानें गी लिखी दी चिट्ठी च प्रधानमंत्री होंरें गलाया जऱ ंचैत ंरिसरें, स्कूलें, आंगनवाड़ियें तऱसामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रें च योग आधारित कार्यक्रमें दा आयोजन करियऱअस लोकें तऱनौजवानें गी स्थाई तऱतनाव मुक्त जीवन शैली अऱनानऱलई प्ररित करी सकनऱआं। उनें गलाया जऱइस बरऱ10में अंतरराष्ट्रीय ोग दिवस दा विषऱऐ "अऱनऱतऱसमाज लई यो"। एहदऱकन्नै एकक स्वस्थ्य राष्ट्र दऱनिर्माण च सरकार दऱयत्नें गी होर बढ़ावा मिलोग। प्रधानमंत्री होंरें गलाया जऱ योग असेंगी शारीरिक तऱमानसिक तौरा ंर स्वस्थ् बनांदा ऐ।

<><><><><><>

Jatinder Singh

सरकार नै जम्मू-कश्मीर च महत्वऱूर्ण शिड़क ंरियोजनाएं गी मंजूरी दई दिती ऐ। केंद्री मंत्री डॉ. जतिंद्र सिंह होंरें गलाया जऱ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण लखनऱुर शा बसोहली बनी तऱभद्रवाह डोडा तगर नमीं राष्ट्री जरनैली शिड़क दा निर्माण करोग। एह प्राधिकरण 4 जहार करोड़ रऱऱ दी लागत कन्नै कठुआ एक्सप्रस

कारीडोर खंड उपर अंडरपास त छतरगला सुरंग दा कम्म बी पूरा करोग।

<><><><><><>

PM-Yoga Day

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होर औंदी 21 जून गी श्रीनगर च 10में अंतरराष्ट्री योग दिवस च शामिल होंगन। इस बर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस दा विशे अणआ त समाज लई योग। नमीं दिल्ली च मीडिया गी संबोधित करद होई केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव यादव होरें योग दा इस बर दा विशे योग दी इक्कल त सामाजिक बहतरी आहली दोहरी भूमिका दा बर आखभा। उनें आखभा ज योग मानसिक त आध्यात्मिक विकास त कन्नै गै समाजी समझदारी गी बढ़ावा दिंदा ऐ। मंत्री होरें आखभा ज किश बरें च योग च अरबां बढ़ा लोकें दी शमूलियत योग दा समाज उपर असर दिखन गी लब्बा ऐ। श्री यादव होरें इस मौके ब्रह्म लिपी च योग सरबंधी दिशा-निर्देश कताब दा विमोचन कीता जिस राएं नबहीन लाकें गी योग गी असानी नै समझन दी मदद थहोग। उनें योग उपर बच्चें लई लिखी दी कामिक प्रोफसर आयुष्मान दा बी विमोचन कीता। इक विशे पैहल तैहत इसरो अंतरिक्ष लई योग ना दी अनूठी पैहल दा बी आयोजन करोग।

इसरो दऱसबुबै साइंसदान तऱअफसर शि-निर्देश मताबक योग करंगन। योग दऱक्षत्र च स्टार्ट अप्स तऱटक्कनालोजी गी बढावा दक्कऱगितै आयुष मंत्रालय नै My Gov Portal तऱYoga Tech Challenge उप्पर योगा टक्क चैलेंज आयोजित कीता ऐ जिस राएं योग कन्नै सरबंधित उऱकरणें, साफ्टवक्कर तऱहोरनें उत्पादन विकसित करनऱच इक्कलऱतऱ स्टार्ट अप दऱ ऱता लाया जा तऱउनेंगी बढावा दिता जा।



PM-Yoga Security

अंतरराश्ट्रीय योग दिवस ऱर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंदऱ नै कोई 6 जहार लोक जिंदऱच मशहूर खडारी बी शामिल होंगन। जम्मू-कश्मीर दऱ समूलचऱश्रीनगर शैहर च 21 जून गी अंतरराश्ट्रीय योग दिवस दऱमौक्क ऱर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंदऱ दौरऱ दऱ मद्दक्कजर सुरक्षा दऱ निग्गर इंतजाम कीतऱगऱन। वी.वी.आई.पी दौरऱ गितै सुरक्षा दऱसबुबै इंतजामें गी मुक्कदा रूऱ दिता गक्का ऐ। इनें इंतजामें च चाक-चौबंद सुरक्षा बवस्था, काजक्रमें च शामिल होनऱआहलें गितै बिजन दिक्कत-ऱरक्षानी दऱआओजाई शामिल ऐ। आधिकारिक सूत्रें मुजब प्रधानमंत्री होर 10मां अंतरराश्ट्रीय योग दिवस मशहूर डल झील कंडऱएस.क्कआई.सी.सी च मनांगन।

<><><><><><>

PM-Yoga-Utrasana

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंरें अज्ज उस्त्रासन उप्पर इक् वीडियो सांझी कीती जिस च गर्दन तऱऱिट्ठ दिएं मांसऱऱिशियें गी मजबूती थहोंदी ऐ। इस राएं खून दा दौरा तऱऱअक्खीं दी रोशनी बहतर हुंदी ऐ। 10में अंतरराश्ट्रीय योग दिवच दऱऱमद्दञ्जर श्री मोदी होंरें एह वीडियो सांझी कीती जिस च आसन कियां करना ऐ, हिंदी तऱऱअंग्रजी च तरीब-बार तरीक्क नै आसन करियऱऱदस्सञ्जा गञ्जा ऐ। प्रधानमंत्री होंरें सोशल मीडिया 'X' उप्पर एह वीडियो सांझी कीती।

<><><><><><>

Srilanka-Yoga

श्रीलंका च भारतीय उच्च आयोग आस्सञ्जा योग महोत्सव दऱऱइक्क हिस्सऱऱदऱऱतौरा ऱऱर कऱऱानीया महा विहारिया च इक् योग सत्र लुआया गञ्जा। अज्ज दऱऱइस कार्जक्रम दा विशऱऱहा, बहतरि लई योग। एह सत्र समूलचऱऱश्रीलंका च ऐतिहासिक थारें ऱऱर 10 दिनें तोड़ी चलनऱऱआहलऱऱयोग महोत्सव दऱऱइक्क हिस्सऱऱदऱऱतौरा ऱऱर आयोजित करायाउ गञ्जा हा।

<><><><><><>

PM-MKB

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों इस म्हीन०दी 30 तरीक गी आकाशवाणी
उप०र प्रसारित हों०आल०उंद०मन की बात कारजक्रम च लोकें थमां
अ०न०सुझा त०विचार मंग०न। इक सोशल मीडिया पोस्ट च श्री मोदी
हों ह०र इक गी माई गोव ओ०न फोरम, नमो ऐ० उप०र या फ्ही अ०न०
स्नह टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 उप०र सांझ०करन०दा आहवान
कीता। सारें सुझाएं गी इस म्हीन०दी 28 तरीक तगर स्वीकार कीता
जाग। एह म्हीन० वार रडियो कारजक्रम दी 111मीं किशत होंग त०
प्रधानमंत्री श्री मोदी हुंद० लगातार त्री बारी प्रधानमंत्री बनन० द० बाद
पैहला होंग। मन की बात कारजक्रम आकाशवाणी त० दूरदर्शन द०
समूलच० नटवर्क, आकाशवाणी समाचार वबसाइट त० newsonair
एआईआर मोबाइल ऐ० ञ०र बी उ०लब्ध होंग। एह कारजक्रम
आकाशवाणी समाचार, डी.डी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय त० सूचना त०
प्रसारण मंत्रालय दी यू-ट्यूब चैनल उप०र सिद्द० प्रसारित कीता जाग।
आकाशवाणी हिंदी प्रसारण द० तुरत मगरा मकामी भाषाएं च प्रसारित
कीता जाग।

<><><><><><>

आतंकी गी बांडीपोरा दा अरागाम ग्रां च मारी दिता गभा। एह आतंकी 2018 बरें शा बक्ख-बक्ख आतंकी गतिविधियें गी अंजाम दभा रदा हा तलशकरतैयबा तटीआरएफ दा सिरदा आतंकी हा। उनें गलाया ज छलकिश चिरथमां ओहदाउपर तक्क रक्खी जा रदी ही तजियां गै ओहदी इलाका च मौजूदगी दी सूह मिली, उसी फगइनलई कल सांझा अभियान चलाया गभा जिस दौरान उसी मारी दिता गभा।

<><><><><><>

IMD-Weather

चला रदागर्म हवा आहलहालात तलू थमां बड़ी राहत ताई भारतीय मौसम विभाग नै अज्ज थमां उत्तर पूर्व तच्छम भारत दा किश हिस्सें च लू तगर्म हवा आहलहालात च कमी दी क्षणगोई कीती ऐ। आकाशवाणी समाचार कन्ने गल्ल करदाहोई भारती मौसम विभाग दा साइंसदान सोमा सन्न राय होरें आखभा जच्छमी हवाएं करी जाब तहरियाणा दा किश हिस्सें च अज्ज तामान शमानी बिजली कन्ने किश घट्ट होनदी मव ऐ। तोआई डॉ. राय होरें आखभा जअगल दऊ-त्रऊं दिनें दौरान उ हिमालय आहलच्छम बंगाल तउत्तर पूर्वी भारत च लगातार भारी थमां मती भारी बरखें दी क्षणगोई कीती ऐ।



Fitch-GDP

मुख्ये दी आर्थिक स्थिति दा आंकलन करन आहली रटिंग एजेसी फिच नै मौजूदा माली बर 2024-25 लई भारत दा सकल घरखू उत्पाद यानि जीडीपी वृद्धि दर अनुमान 7 प्रतिशत शां बधाइय 7 इशारिया 2 फीसद करी दिता ऐ। उपभोक्ता खर्च च सुधार त निवश्च च बाद्दगी दिक्खदा होई एह तब्दीली कीती गई ऐ। रटिंग एजेसी नै अज्ज जारी अनी वैश्विक आर्थिक आंकलन रिपोर्ट च 2024 लई वैश्विक वृद्धि दर अनुमान गी बी 2 इशारिया 4 प्रतिशत शा बदाइयै 2 इशारिया 6 फीसदी करी दिता ऐ।

